



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS  
ACROSS ALL EXAMS

**₹599** FOR  
1 YEAR  
**BUY NOW**

testbook

## भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति - GK नोट्स का PDF डाउनलोड करें!

आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चालू और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर 03 अक्टूबर 2018 को तीन दिवसीय विचार-विमर्श शुरू किया। एमपीसी 2018-19 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य के लिए चौथी द्वि-मासिक बैठक आयोजित कर रहा है। इस बैठक में, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बेंचमार्क रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा और रिवर्स रेपो दर 6.25% पर रखी है। इस लेख को मौद्रिक नीति और दैनिक जीवन के परिणामों के बारे में जानने के लिए पढ़ें। इसके अलावा यह आलेख आपको IBPS RRB, IBPS PO, IBPS Clerk, SEBI, Railways RRB Group D जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए बैंकिंग अवेर्नेस तैयार करने में भी मदद करेगा।

### आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या है?

मौद्रिक नीति मूल रूप से देश के केंद्रीय बैंक यानि कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है। इसे 'क्रेडिट पॉलिसी' भी कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और क्रेडिट की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्रेडिट नीति के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता का प्रबंधन करने के लिए बैंक दरों, एमएसएफ, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio) जैसी दरों को नियंत्रित करता है। नए मान इस प्रकार हैं:

**रेपो दर - 6.50%, रिवर्स रेपो दर - 6.25%, मामूली स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर - 6.75%**

रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में विस्तार से जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जायें:

**[Learn Repo Rate, Reverse Repo Rate & Other Important Terms](#)**





testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS  
ACROSS ALL EXAMS

₹400 FOR  
4 MONTHS

testbook

BUY NOW

## आरबीआई मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य

मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

- मूल्य स्थिरता (Price stability)
- विनिमय दर स्थिरता (Exchange Rate Stability)
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation targetting)
- आर्थिक विकास (Economic Growth)

## आरबीआई मौद्रिक नीति - ताजा खबरें

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की हाल की बैठक में रिपो रेट को नहीं बदला गया है। हालांकि अधिकांश विश्लेषण और बैंक अधिकारी मान रहे थे कि RBI केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कम से कम 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। RBI की Monetary Policy Committee (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक के बाद कहा गया कि 'समिति मजबूती से मुख्य या खुदरा मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि लक्ष्य को चार प्रतिशत के दायरे में रखने की प्रतिबद्धता दोहराती है।' जिसके बाद फैसला लिया गया कि रिजर्व बैंक की रेपो दर 6.5 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 6.25 प्रतिशत बरकरार रहेगी। इसी बीच समिति के पाँच सदस्यों ने दर को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मत दिया तो वही सिर्फ चेतन घटे ने अकेले कहा कि इस दर को 0.25 प्रतिशत वृद्धि पर रोक जाये। RBI के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने यह भी कहा कि सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौती की है जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित में रखने में मददगार साबित होगी। साथ ही आरबीआई ने कहा कि मार्च 2019 की तिमाही तक खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.5 प्रतिशत पर पहुँच सकती है। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में वृद्धि 7.6 प्रतिशत पर भी पहुँच सकती है। रिजर्व बैंक ने साढ़े चार साल के अंतराल के बाद पहली बार जून में हुई दूसरे त्रैमासिक समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दर में वृद्धि की थी। जिसके बाद RBI ने भी इसी साल अगस्त की नीतिगत बैठक में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इस साल लगातार दो बार 0.25 प्रतिशत की वृद्धि के बाद इस समय रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर है। एमपीसी की अगली बैठक 3 से 5 दिसंबर 2018 के बीच निर्धारित की गयी है। आप अन्य सभी आरबीआई अपडेट प्राप्त करने के लिए [RBI Official Website](#) पर भी जा सकते हैं। आप इस लेख को पीडीऍफ़ में भी डाउनलोड कर सकते हैं।



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS  
ACROSS ALL EXAMS

₹200 FOR  
1 MONTH

testbook

BUY NOW



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS  
ACROSS ALL EXAMS

**₹599** FOR  
1 YEAR

BUY NOW

testbook

आरबीआई मौद्रिक नीति के अपडेट के प्रभावों के बारे में अधिक जानने के लिए और रेपो दर की खबरों पर अपने विचार साझा करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आएं। आप बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अन्य जानकारी जानने के लिए निम्न लिंक भी देख सकते हैं।

**साप्ताहिक सामान्य ज्ञान बैंकिंग कैप्सूल**

**बैंकिंग और व्यापार में भारतीय महिलायें**

इस लेख के अतिरिक्त अन्य करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे टेस्टबुक कमेंट बॉक्स में जायें और हमारे साथ जुड़ें:



testbook.com

